

Call Us **19123** (TOLL FREE)

Bill of Supply for Electricity

Due Date (देय तिथि):

Name : **MAHINDER PAL**
Billing Address : **MR. CHHAJJU RAM B-417 SANGAM VIHAR NEW DELHI 110062**
Mobile / Tel. No. : 99*****31
Email ID : a*****4@gmail.com
District / Division : Khanpur
Walking Sequence : **SVB281036A0AA**
Bill Month : MAR-26
Bill Date : 13-03-2026

Sanctioned Load : 2.00 (kW)
Contract Demand :
M D I : 2.30 (kW)
Power Factor : 0.849
Pole No : KPRPHE68S1
Meter Reading Status : DL
Cycle No. : 11
Tariff Category : Domestic [Residential]

CA No. : **101850674**
Energisation Date : 31-07-2006
Meter Type : 1PSK
Supply Type : LT
Bill No. : 101358559368
Bill Basis : Actual
O.D. No. : R/25/10516454640
CCTV Tagged : No
Street Light Tagged : No
Wi-Fi Tagged : No

EBILL Customer

Pay online by 20-03-2026 and earn 100 e-LECTRIC Reward points. Pay online between 21-03-2026 to 28-03-2026 and earn 50 e-LECTRIC Reward points. To know more about e-LECTRIC Reward Program, visit www.bsesdelhi.com

Meter No. (मीटर सं.)	Unit (यूनिट)	Billed Consumption (Current)		Billed Consumption (Previous)		Multiplication Factor (गुणांक)	Current Consumption (वर्तमान खपत)	
		Date of Meter Reading (मीटर रीडिंग की तिथि)	Reading (रीडिंग)	Date of Meter Reading (मीटर रीडिंग की तिथि)	Reading (रीडिंग)		Days (दिन)	Unit (यूनिट)
41265733	kWh	11-03-2026	6224.00	06-02-2026	6022.00	1.00	33	202.00
41265733	kW	11-03-2026	2.30	06-02-2026		1.00		2.30
41265733	kVAh	11-03-2026	6796.00	06-02-2026	6558.00	1.00	33	238.00
41265733	kVA	11-03-2026	2.30	06-02-2026		1.00		2.30

Billing Details (बिल का विवरण)

Current Period Charges (वर्तमान अवधि का शुल्क) (07-02-2026 to 11-03-2026)

"LET'S MOVE TO ELECTRIC VEHICLES FOR BETTER TOMORROW
(अच्छे भविष्य के लिए विद्युत वाहन की तरफ बदलाव करें)"

Fixed Charge = "A" (स्थायी शुल्क)	Consumption Measured During (खपत अवधि माप)	Energy Units Consumed/Billed (खपत / बिल में शामिल विद्युत यूनिट)	Slabwise Energy Charge (स्लेब आधारित विद्युत शुल्क)		Slab-wise Power Purchase Adjustment Charge (स्लेब आधारित विद्युत क्रय समायोजन शुल्क)		Time of Day (TOD) Charge दैनिक ऑफ डे (टैरिफ) शुल्क		Surcharge @ 8% on (Energy Charge + Fixed Charge - Rebate) = "E" (विद्युत शुल्क + स्थायी शुल्क - छूट, पर 8% अधिभार)	Electricity Tax @ 5% on (Energy Charge, PPAC amount & TOD Surcharge/Rebate amount = "H" (विद्युत शुल्क, पीएचए शुल्क के अधिभार, पीपीएससी राशि एवं टैरिफ शुल्क के अधिभार / छूट पर, 5% विद्युत कर)	Total Amount (K=A+B+C+D+E+F+G+H+J) (कुल राशि)
			Units Rate (यूनिट दर)	Amount = "B" (राशि)	PPAC % on B (B पर पीपीएससी प्रतिशत)	PPAC Amount = "C" (पीपीएससी राशि)	TOD % on "B" (B पर टैरिफ प्रतिशत)	TOD Surcharge/Rebate Amount = "D" (टैरिफ अधिभार/छूट राशि)			
45.62		12.00	3.00	36.00	6.73	2.42			52.13	34.49	817.65
1.14Mth(s)		190.00	3.00	570.00	5.76	32.83					
PPAC on Fixed Charge = "G"									Pension Surcharge @ 7% on (Energy Charge+Fixed Charge-Rebate) = "F"		
2.66									45.61		
CCTV Units									TCS Amount ₹ "I"		
Street Light Units									Base Amt. Surcharge		
Wi-Fi Units									Other Charges ₹ "J"		
									(4.11)		
									CCTV Bill Amt		
Total Units =		202	Total (B) =		606.00	Total (C) =		35.25	Total (D) =		

Past Dues / Refunds / Subsidy (पिछला बकाया / वापसी / सब्सिडी) Consumer registered under GST may submit it's GSTIN at concerned division

Provisional Bill Refunds (वापसी)		Arrears (बकाया)		Late Payment Surcharge (LPSC) (देरी से भुगतान पर अधिभार)	Total Charges Payable (कुल देय शुल्क)	Rebate / Subsidy* (छूट/सब्सिडी)	Net Amount Payable (कुल देय राशि)
Refund Unit	Refund Amount	Amount (राशि)	Period to which it relates (जिस अवधि से संबंध है)				
					817.65	/(821.76)	(4.11)

Amount not immediately payable, if any. (राशि जो तुरंत देय नहीं है, यदि हो तो)		BG Security Deposit	₹
₹		BG Expiry Date	
Service line cum Development Charges paid (भुगतान किया गया सर्विसलाइन एवं डेवलपमेंट शुल्क)		Cash Security Deposit	₹ 1200.00
Interest accrued for FY 2024-25 already adjusted in bill no. 100998370528 (generated for the period 12-03-2025 to 09-04-2025).			₹ (103.80)
Interest for FY 2025-26 will be adjusted in your first bill to be generated in FY 2026-27			

Last payment ₹ 270.00 received on 30-11-2025. Payment accounted upto 10-03-2026.

Consumption History (खपत का विवरण):

Period		No. of Days	Units (kWh/kVAh)	Total Bill Payable	Bill Basis
From	To				
09-01-2026	06-02-2026	29	185	(4.11)	Actual
08-12-2025	08-01-2026	32	195	(4.11)	Actual
08-11-2025	07-12-2025	30	182	(4.11)	Actual
08-10-2025	07-11-2025	31	239	270.00	Actual
07-09-2025	07-10-2025	31	414	2130.00	Actual
07-08-2025	06-09-2025	31	420	2200.00	Actual

(This bill is computer generated, hence does not require any signature.)

Contact Details: (संपर्क संबंधी विवरण):

Nearest Customer Care & Payment Centre
BSES SUBSTATION BUILDING SOUTH END APPT, MB
ROAD NEW DELHI 110044 (Tel No: 49107283)
Business Manager : MR. NAVEEN KULSHRESTHA
(49107284)
Commercial Officer : MR. VIJAY PAL RAWAT (49209742)

IMPORTANT MESSAGE (महत्वपूर्ण सूचना)

GoNCTD vide Order No F.6/85/Power/2024/447-459 dated 14.Mar.2024 has extended subsidy to Domestic Consumers for Financial Year 24-25 of entire bill amount upto 200 Units/ month. Slab 201-400 Units/ month will get subsidy upto Rs 800/ month. No subsidy for consumption above 400 Units/month. Power Purchase Adj. Charge (PPAC) @ 05.76% been levied on energy & fixed charge w.e.f 09.02.2026. CCTV Bill amount included. In case any variation in SLD charges noted, consumer may visit divisional office for requisite correction. Pension Surcharge @ 7.00% has been levied on energy & fixed charge w.e.f. 01.10.2021. The amount of Security Deposit against your connection is mentioned herewith under the heading "Security Deposit with DISCOM". Please check this amount and report any discrepancy by furnishing documentary proof in that regard available with you, at the customer care centre of respective division office. Anyone treating Electricity Bill as conclusive proof of Residence is advised to

Payment Slip

• Make your Cheque/DD payable to BRPL CA No. 101850674

Bill Month : MAR-26


Bill Amount payable : ₹ 0.00 Cheque DD No.:

Date :



1100R101850674000000000000202603130000000000

Adopt e-bill. Save trees. Provide email details to us through website/call/email.

Scan & Pay QR code
Powered by BOB
The Bill of the Future

1100R1018506740000000000002026031300000000000



Tariff structure

		Fixed/Demand Charge		Energy Charge					Categories	Description	Fixed/Demand Charge	Energy Charge	Temporary		
Categories	Description	Load(kW)	(₹/month)	0-200 Units	201-400 Units	401-600 Units	601-1200 Units	Above 1200 Units					Categories	Fixed Charge	Energy Charge
Domestic	Individual connections: Domestic Light / Mixed Domestic Power, Farm House upto 21kW	Upto 2kW	20/kW/mth	₹3.00	₹4.50	₹6.50	₹7.00	₹8.00	Agriculture	Agriculture	125/kW/mth	₹1.50/kWh	Domestic Including GHS	Same as relevant category	Same as relevant category
		>2kW to 5kW	50/kW/mth						Mushroom	Mushroom Cultivation upto 100 kW	200/kW/mth	₹3.50/kWh			
		>5kW to 15kW	100/kW/mth						Public Utility	Delhi Jal Board, DMRC, Public Lighting etc.	250/kVA/mth	₹6.25/kVAh	Threshers during the threshing Season	MCD E. Tax of ₹ 270/ conn/mth	Flat Rate ₹5400/mth
	>15kW to 25kW	200/kW/mth	Delhi International Airport Limited (DIAL)		250/kVA/mth	₹7.75/kVAh									
	>25kW	250/kW/mth	Advertisements and Hoardings		250/kVA/mth	₹8.50/kVAh									
	Single point supply at 11kV for GHS - Domestic Lighting / Fan and Power		150/kW/mth		₹4.50/kWh				Charging Stations for E-Rickshaw/ E-Vehicle on Single Point Delivery		LT	₹4.50/kWh	All other including construction	Same as relevant category	1.30 times of relevant category of tariff
Non-Domestic	Shopkeepers	Upto 3kVA	250 kVA/mth	₹6.00/kVAh				HT	₹4.00/kVAh						
	Other Non-Domestic	>3kVA		₹8.50/kVAh											
Industrial	Industrial	250/kVA/mth				₹7.75/kVAh									

Schedule of Time of Day (TOD) Tariff

Month	Peak hours	Surcharge on Energy Charges	Off-Peak hours	Rebate on Energy Charges
May-September	1400-1700 hrs and 2200-0100 hrs	20%	0400-1000 hrs	20%

For other than peak & off-peak hours normal energy charges are applicable. Mandatory for >10kW / 11kVA other than Domestic. Optional for 3 Phase Domestic Consumers.

As per CEA regulation 31 and 32 : Consumers are advised that all electrical installation works shall be got done and checked periodically through licensed electrical contractors only. In case there is any damaged cable /Insulation damaged -It shall be either replaced or suitably repaired through licensed electrical contractors since such joints are prone to electrical heat / fire.

Disclaimer- This electricity bill is only for electricity supply to the premises occupied by the consumer and should not be construed as having bearing on the rights or titles over the premises.

अस्वीकरण: यह बिजली का बिल उपभोक्ता के निवास/ कार्यालय पर बिजली की आपूर्ति के लिए है, और इस से स्थान पर उपभोक्ता के अधिकार या स्वामित्व समान न समझा जाए।

Customer Complaint Management:

For any query/complaint, you may contact us using any of the following options:

- Call Center No. 19123 (24x7 Toll Free)
- Customer Care Help Desk (Timing Mon to Fri : 9:30 AM to 5:30 PM & Sat: 9:30 AM to 1:00 PM)
- Email-brpl.customercare@reliancegroupindia.com
- www.bsedsdelhi.com

Escalation matrix for complaints:

1. In care you are not satisfied with the resolution of your query/complaint, you may contact the below listed BRPL officials-
 - Customer Care officer (Timing 09:30 AM to 5:30 PM)
 - Business Manager (between 10AM to 11AM on any working day)
 - Circle Head (with prior appointment)

2. Head-Customer Service

BSES Rajdhani Power Limited,
BSES Bhawan, Nehru Place, New Delhi-110019
Email - brplhead.customercare@reliancegroupindia.com

3. Internal Grievance Redressal Cell (ICGR)

Website : <https://icgrbrpl.bsedsdelhi.com/>
Contact No.: 011-49107924

4. Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF):

In Case you are not satisfied with the response of the above, you may approach CGRF-BRPL, Sub-station Building, Sector-V, Pushp Vihar, New Delhi-110017.

Email: cgrfbrpl@gmail.com

5. Electricity ombudsman:

An appeal against the CGRF order may be filled with Electricity Ombudsman. B-53, Paschim Marg, Vasant Vihar, New Delhi-110057

उपभोक्ता शिकायत प्रबंध:

किसी तरह के पूछताछ/ शिकायत के लिए कृपया आप हमें निम्नवत् विकल्पों के जरिए संपर्क कर सकते हैं:

- कॉल सेंटर नंबर 19123 (24x7 टोल फ्री)
- ग्राहक सेवा सहायता डेस्क समय (सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे से अपराह्न 5:30 बजे और शनिवार सुबह 9:30 से अपराह्न 1:00 बजे तक)
- brpl.customercare@reliancegroupindia.com पर ईमेल करें
- www.bsedsdelhi.com

शिकायतों के लिए यहां भी संपर्क करें:

1. अगर आप अपने पूछताछ/ शिकायत के निवारण से संतुष्ट नहीं हैं तो आप निम्नवत् बीआरपीएल अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं-
 - कस्टमर केयर ऑफिसर (सुबह 9:30 बजे से अपराह्न 5:30 बजे)
 - बिजनेस मैनेजर (किसी भी कार्यदिवस के दिन सुबह 10 बजे से 11 बजे तक)
 - सर्किल हेड (पूर्व निश्चित समय लेकर)

2. हेड ग्राहक सेवा,

बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड,

बीएसईएस भवन, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110019

ईमेल: brplhead.customercare@reliancegroupindia.com

3. आंतरिक शिकायत निवारण कक्ष (आईसीजीआरसी)

वेबसाइट : <https://icgrbrpl.bsedsdelhi.com/>

संपर्क नंबर : 011-49107924

4. कंज्यूमर गिवांस रीड्रेसल फोरम (सीजीआरएफ):

यदि आप अपनी शिकायत पर सेवा प्रदाता के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप सीजीआरएफ-बीआरपीएल, सब स्टेशन बिल्डिंग, सेक्टर - V, पुष्पविहार, नई दिल्ली 110017, ईमेल cgrfbrpl@gmail.com में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

5. इलेक्ट्रिसिटी ऑम्बुड्समैन :

सीजीआरएफ के आदेश के खिलाफ अपील इलेक्ट्रिसिटी ऑम्बुड्समैन, बी-53, पश्चिमी मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057, में दायर कर सकते हैं।



FREE LEGAL AID

Please contact for any legal assistance:-
Delhi State Legal Services Authority (DSLISA), Rouse Avenue District Courts, New Delhi.
 Toll free helpline No. 1516 (24x7), email Id:- lae-dslisa@gov.in, web:- www.dslsa.org, [facebook.com/dslsa](https://www.facebook.com/dslsa), Or you may approach DSLSA office at your nearest Court Complex of Delhi.
 For any dispute related to electricity & 'public utility services' you may approach:-

- Permanent Lok Adalat-II (for BSES RPL, BSES YPL & other public utility services) at Mata Sundari Road, Near ITO, Delhi.
- Permanent Lok Adalat-III (only for BRPL & other public utility services) at PVR Road, G-Block, Near PVR, Vikas Puri, New Delhi-110018.

आपका बिल भुगतान

बिल भुगतान सूचना

भुगतान विकल्प

1. आप 4000 रुपये तक के अपने बिल का भुगतान नकद/ चेक / डीडी / पे ऑर्डर के माध्यम से कर सकते हैं। 4000 रुपये से अधिक की रकम का भुगतान चेक / डीडी / पे ऑर्डर के माध्यम से कर सकते हैं।
2. डीईआरसी के हालिया टैरिफ ऑर्डर के मुताबिक, सभी उपभोक्ताओं (घरेलू कृषि और मशरूम की खेती को छोड़कर) के लिए आवश्यक है कि वे 20,000 रुपये से अधिक के बिल का भुगतान 1 अक्टूबर, 2021 से डिजिटल माध्यमों से करें।
3. आरडब्ल्यू ऑफिसर और विभिन्न बीआरपीएल कार्टर्स पर लगे हमारे ड्रॉप बॉक्स में आप अपना चेक डालें। ड्रॉप बॉक्स की लिस्ट हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है।
4. बिल भुगतान केंद्र सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक खुले रहेंगे।
5. पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ़ इंडिया की शाखाओं में 50000 रुपये तक बिजली का भुगतान नकद में करा सकते हैं।

बिल भुगतान करते समय ये बातें याद रखें

1. कंप्यूटरीकृत बिल पाने के बाद ही अपने बिजली बिल का भुगतान करें।
2. अनाधिकृत एजेंसियों/ दलालों को भुगतान न करें।
3. अगर आपका चेक बैंक द्वारा बगैर भुगतान के / अस्वीकृत होकर वापस आ जाता है तो चेक वापसी शुल्क (मौजूदा 200 रुपये + जीएसटी, जैसा लागू हो) वसूला जाएगा और निगोशिएबल इस्ट्रमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत कार्यवाही की जाएगी
4. कार्ड स्वाइप और ऑनलाइन के द्वारा 5000 रुपये से अधिक के भुगतान पर लगने वाले सुविधा शुल्क को उपभोक्ता को वहन करना होगा। शुल्क के विस्तृत ब्यौरा के लिए कृपया हमारे वेबसाइट www.bsedsdelhi.com पर जाएं।

Paying your electricity bill (Bill payment information)

Payment Options

1. You can pay your bill by cash/cheque/DD/Pay Order up to Rs 4000/- and for amount more than Rs 4000/- by cheque/DD/Pay Order
2. According to DERC's recent tariff order, it is mandatory for all consumers (except Domestic, Agriculture & Mushroom Cultivation) to pay their monthly electricity bills exceeding Rs 20,000/- through digital modes w.e.f October 1, 2021*
3. Drop your cheque in our drop boxes at various RWA offices and at BRPL Counters. The list of drop boxes is available on the website
4. Bill payment counters are open from 0900 hrs to 1500 hrs. from Monday to Saturday.
5. Bill payment upto Rs 50,000/- can be paid in cash at Bank branches of PNB and Bank of Baroda.

Points to remember while paying your bill

1. Please pay your electricity bill only on obtaining computer generated bill
2. Do not make payment to unauthorized agencies/touts.
3. In case your cheque is returned unpaid/dishonored by bank, cheque return charges (presently Rs. 200+ GST, as applicable) will be imposed and action will be taken under Section 138 of the Negotiable Instruments Act 1881.
4. Convenience fee on card swipe and online payments applicable on payment amount above Rs 5000/- is to be borne by the consumer. For charge details, kindly visit our website www.bsedsdelhi.com.

Pay your electricity bills conveniently by any of the following options:

Payment Options			Timings
Digital Online Payments	• Bharat Bill Pay (BBPS) - Pay option at all BBPS enabled Payments App (Paytm etc.) (Zero Charges) • QR code on bill - Powered by BOB • BSES Mobile App/Website - UPI, IMPS, Internet Banking, Credit/Debit Cards, Mobile Wallets, QR Code • RTGS/NEFT/ECS		24x7
Cash Counters	BRPL Cash Counters: • Cash-Upto Rs. 4000/- • Cheque & Demand Draft- No amount limit for Domestic, Agriculture & Mushroom Cultivation category consumers and for other category consumers maximum allowed is upto Rs. 20,000/-. • Credit/Debit Cards • UPI		9AM - 3PM
24*7 self payment Kiosk	24*7 self payment Kiosks by cards, each division office		24x7
Bank Branches	Bank of Baroda and PNB: • Cash-Upto Rs. 50,000/- only for Domestic, Agriculture & Mushroom Cultivation category consumers and for other category consumers maximum permissible limit is upto Rs. 20,000/- • Cheque & Demand Draft- No amount limit for Domestic, Agriculture & Mushroom Cultivation category consumers and for other category consumers maximum allowed is upto Rs. 20,000/-. • Transfer by account holders		Bank Timings
Cheque Drop boxes	Select RWA locations BRPL owned drop boxes at counters	Cheque & Demand Draft - No amount limit for Domestic, Agriculture & Mushroom Cultivation category consumers and for other category consumers maximum allowed is upto Rs. 20,000/-	24x7 9AM - 5PM
Cheque by Post	To BRPL division offices- Cheque & Demand Draft- No amount limit for Domestic, Agriculture & Mushroom Cultivation category consumers and for other category consumers maximum allowed is upto Rs. 20,000/-.		24x7

For payment of energy bill		
Details	SBI Bank	Axis Bank
Beneficiary Name	BSES Rajdhani Power Limited	BSES Rajdhani Power Limited
Beneficiary A/C No.	SBIBRE (Fixed) + 9 Digit Customer Account Number (Variable)	VBRE(Fixed) + 9 Digit customer account number (Variable) (For eg. VBRE123456789)
IFSC Code	SBIN0004266	UTIBOCC274
Bank Name	State Bank of India	Axis Bank Ltd
Branch Address	State Bank of India, CMP Centre	9th floor, Solaris C wing, Opp L&T gate no. 6, Sakhi Vihar Road, Powai, Mumbai-400072

The connection shall be liable for disconnection on non-payment of all dues (including arrears of previous bill(s) by due date, after notice as per Section 56(1) of the Electricity Act, 2003. Charges for reconnection - Single phase ₹200, Three phase ₹500.)

BSES Powered by **BHARAT BILLPAY**
BSES Rajdhani Power Limited

- Cheque should not be post dated.
- Write your telephone number on backside of the cheque.
- Cheque should be account payee and payable at Delhi.
- Do not staple. Only clip the cheque to payment slip.

For detail log on to our website www.bsedsdelhi.com. Alternatively, you can visit our Customer Care Center or simply call at 19123 (24x7 Toll Free)

Regd. Office: BSES Rajdhani Power Limited (A joint venture of Reliance Infrastructure Ltd. and Govt. of NCT of Delhi) BSES Bhawan, Nehru Place New Delhi 110 019.

CIN No.: U40109DL2001PLC111527, GSTIN.: 07AAGCS3187H223, Tel. No. 19123 (24x7 Toll Free), Fax No.: +91 1149207888, Website: www.baesdelhi.com

“Dear Consumer, please update your Email ID and phone number against your CA number as soon as possible. You may do this by visiting the nearest BRPL office. Alternatively, our Meter Readers and Bill Distributors are also coming to your area; You can also provide your email ID and phone number to them so that your details are correctly updated, helping us serve you more efficiently.”